



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 149) पटना, बुधवार, 11 अप्रील 2012

मुख्य अभियंता-2 भागलपुर (मुख्यालय पटना)
ग्रामीण कार्य विभाग
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश
2 अप्रील 2012

सं0 988—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक 1337, दिनांक 21.03.07, पत्रांक 1117, दिनांक 7.5.05 एवं पत्रांक 2360, दिनांक 24.12.08 के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति सह-जिला पदाधिकारी जमुई का ज्ञापांक 690, दिनांक 04.11.2011 क्रमांक 5 पर श्री रणधीर कुमार, पिता-स्व0 गायत्री सिंह, स्टोर चौकीदार, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-2, जमुई को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर का पत्रांक 944, दिनांक 21.11.2011 द्वारा प्राप्त कागजात (आवेदन-पत्र, परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्रों) के आलोक में श्री रणधीर कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर (पुराना वेतनमान 3050-4590) नया वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 रु0 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्त किया जाता है एवं ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर के अधीन पदस्थापित किया जाता है। श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, मुंगेर में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

- स्व0 गायत्री सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री रणधीर कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।
- इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
- नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा।
- अगर श्री कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।
- नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

- इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।
7. श्री कुमार की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना का पत्रांक नि0-1035 दिनांक 28.02.2012 परीक्षा नियंत्रणक तिलकामांझी भागलपुर, विश्वविद्यालय, भागलपुर का पत्रांक CCDe/1236/12 दिनांक 03.02.12 द्वारा स्नातक (कला) का परीक्षा फल की अंक पत्र का सत्यता का जाँच करा लिया गया है।
 8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
 10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
 11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
ई0 अच्छे लाल राम,
मुख्य अभियंता-2 भागलपुर,
ग्रा0का0वि0, (मु0, पटना)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>